



नशेबाजी में हुई थी मनोज की हत्या

-बिधनू थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर को आई थी बारात

- स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आया था चालक मनोज

कानपुरा थाना गुजैनी से स्कॉर्पियो कार लेकर आए चालक मनोज की हत्या नशे बाजी के चक्कर में हुई थी। घटना की जांच में जुटी थाना बिधनू पुलिस ने हत्याकांड के राज से पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने आरोपी हत्यारे को दबोच लिया है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस विधिक कारवाई कर रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक 08/12/2022 को ग्राम बाजपुर पोस्ट रमईपुर में बारात में शामिल होने के लिये मनोज कुमार यादव पुत्र स्व० जिलेदार यादव निवासी मेहरबान सिंह का पुरवा, थाना गुजैनी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से आया था। उसके साथ ब्रजेश सिंह यादव व ग्यान सिंह फौजी अपने-अपने गाड़ीयों से आए थे। ये लोग ट्रेवल एजेन्सी में अपनी गाड़ी लगाकर चलाते हैं। तीनों लोग बारात में एक साथ खाना खाते हुये व जाते हुये देखे गये। CCTV फुटेज व CDR का अवलोकन करने पर घटना के समय दोनों लोग मृतक मनोज व बृजेश की लोकेशन एक साथ पायी गयी। दोनों लोगो ने अपना फोन भी उसी समय एक साथ लगभग 22.15 बजे स्विच ऑफ किया। अभि ब्रजेश को घटना के बाद भी घटनास्थल पर देखा गया। पूछताछ में सामने आया कि अभि ब्रजेश और मृतक मनोज के बीच भी पहले दारू पीकर कहासुनी व गाली गलौज हुयी थी। उही पुरानी बातों को लेकर मृतक मनोज और अभि० मनोज के बीच लड़ाई झगड़ा और कहासुनी हुई थी।

पुलिस ने घटना के संबंध मु०अ०सं० 567/22 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा घटना के बाद से अभियुक्त की लोकेशन दिनांक 09.12.2022 को घटनास्थल पर पुनः पायी गयी जिससे अभियुक्त की संदिग्धता और भी बढ़ गयी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त बृजेश सिंह यादव पुत्र श्री बहादुर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं० 567/22 धारा 302/201 भादवि थाना बिधनू कमिश्नरेट कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह, उ०नि० मुकेश कुमार सिंह, हे०का० मिथलेश शुक्ला, हे०का० राष्ट्रपाल, हे०का० राजकिशोर भदौरिया शामिल रहे।